

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260856  
SG-DL-E-08022025-260856असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 382
No. 45]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946	[N. C. T. D. No. 382

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIefgyk , oa cky fodkl foHkx  
vf/kl ipuk

दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

Qk-l a 22%10%@HkrhZ fu; e@i; b\$kd xM&I@iZkk@efg-, oa ck-fodk-@2021@1125.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "पर्यवेक्षक (महिला) ग्रेड-I" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1- I f{klr 'kh"kd , oa i kjHk%&(i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यवेक्षक (महिला) ग्रेड-I भर्ती नियमावली, 2024' कहा जाए।  
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2- i nka dh l a[; k] oxhjdj.k rFkk oru e\$VDI e\$ Lrj %& उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3- HkrhZ i ) fr] vk; (I hek] ; kX; rk,a bR; kfn %& उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- 4- v; kX; rk %वह व्यक्ति,  
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा  
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।  
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- 5- शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6- इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vUq pph

1.	i nuke	:	पर्यवेक्षक (महिला), ग्रेड—I
2.	i nka dh l a[; k	:	57 (2024)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। अभ्युक्ति : गैर-संवर्ग
3.	oxhldj . k	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—ख
4.	i & cM rFkk xM i s@osruoku	:	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35400—112400/—)
5.	D; k p; u i n g\$ vFkok x\$ & p; u i n	:	चयन पद
6.	I h/kh HkrhZ okys mEehnokjka ds fy, vk; q l hek	:	लागू नहीं
7.	I h/kh HkrhZ okys mEehnokjka l s vi f{kr 'kF{kd rFkk vU; ; kX; rk	:	vfuok; l ; kX; rk % लागू नहीं vUqko % लागू नहीं okdNuh; ; kX; rk % लागू नहीं vUqko % लागू नहीं
8.	D; k I h/kh HkrhZ okys mEehnokjka ds fy, fu/kkFjr 'kF{kd ; kX; rk , oa vk; q l hek i nklufR okys mEehnokjka i j Hkh ykxw gkxhA	:	vk; : लागू नहीं 'kF{kd ; kX; rk : लागू नहीं
9.	i f j oh{kk dh vof/k] ; fn dkbZ g\$	:	02
10.	HkrhZ dh i ) fr I h/kh HkrhZ }kj k ; k i nklufR }kj k ; k i frfu; fDr@vkeyu }kj k rFkk foHkUu i ) fr; ka }kj k Hkjs tkus okys f j Dr i nka dk i fr'kr	:	i ) fr % पदोन्नति i fr\$kr % 100
11.	; fn i nklufR@i frfu; fDr@vkeyu }kj k HkrhZ gkuh gks rks xM ftul s i nklufR@i frfu; fDr @	:	i nklufR % नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में

	vkesyu fd; k tkuk gS	06 वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300/-) में पर्यवेक्षक, ग्रेड-II (महिला) तथा उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित कम-से-कम 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। ekud Vhi % जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	; fn dkbz foHkxh; i nklufr l fefr : gk; rks bl dh l j; puk D; k gS	foHkxh; i nklufr l fefr 1- प्रधान सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2- प्रशासनिक सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3- विशेष या अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4- निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) foHkxh; LFkk; hdj .k l fefr 1. प्रधान सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. प्रशासनिक सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. विशेष या अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)
13.	os i fjfLFkfr; k; ftues Hkrh; ds fy, l ik ykd l ok vk; kx dk i jke' k fy; k tkuk gS	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मिताली नामचूम, निदेशक

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2025

**F. No. 22(10)/R.R/Supervisor Gr-I/Admn/WCD/2021/1125.**—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13 th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Supervisor (Women), Grade - I in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement:**-(i) These rules may be called the Department of Women and Child Development, Supervisor (Women), Grade-I, Recruitment Rules, 2024. (ii) They shall come into force on the date of their

publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix:-**The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc:** The method of recruitment to the said posts, age limit. Qualification and other matters connected there with, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification:-**No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade pay/Pay Scale	Whether Selection or non-Selection posts	Age limit for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Education qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.
1	2	3	4	5	6	7	8
Supervisor (women), Grade-I	57 (2024)* *Subject to variation dependent on work load Remark: Ex-Cadre	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group-B	6 Remark: Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection Post	Not applicable	Essential Qualification: Not applicable  Experience: Not applicable  Desirable Qualification: Not applicable  Experience:	AGE:NA Edu. Qual: NA

						Not applicable	
Period of Probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.			
9	10	11	12	13			
2 years	<b>Method:</b> Promotion <b>Percentage:</b> 100	<b>Promotion:</b> Supervisor, Grade-II (Women) in Level -5 in the Pay Matrix (Rs. 29200-92300/-) with 06 Years Service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed at least 2 weeks training as prescribed by the Competent Authority.  <b>Standard Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility Service.	<b><u>Departmental Promotion Committee</u></b>  1. Principal Secretary, Directorate of Training and Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3. Special or Addl. Secretary, Health & Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi (Member) 4. Director, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member)  <b><u>Departmental Confirmation Committee</u></b>  1. Principal Secretary, Directorate of Training and Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3. Special or Addl. Secretary, Health & Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi (Member) 4. Director, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary			

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
MITALI NAMCHOON, Director